



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 6, 2006/पौष 16, 1927

No. 1]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 6, 2006/PAUSA 16, 1927

परिसीमन आयोग

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2006

आ.अ. 1(अ).—सं. 282/छत्तीसगढ़/2005-खण्ड-III : 12 दिसम्बर, 2005 को छत्तीसगढ़ राज्य के राजपत्र और भारत के राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित अधिसूचना सं. 282/छत्तीसगढ़/2005-खण्ड-III हिन्दी रूपांतर के साथ संलग्न छत्तीसगढ़ राज्य में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के विस्तार को दर्शाती हुई "सारणी-क" में निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी —

31-बेलतारा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के विस्तार में बिलासपुर तहसील में बिलासपुर रा.नि.मं. के 18-बैमा पटवार सर्किल को सम्मिलित किया जाएगा।

[सं.282/छत्तीसगढ़/2005-खण्ड-III]

आदेश से,

शंगारा राम, सचिव